

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई 2023—आषाढ़ 30, शक 1945

### विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 जून 2023

क्रमांक एफ 2-1/2008/1-8.—श्री रजनीश श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ की सेवायें विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा इस विभाग को सौंपी गई हैं.

2. राज्य शासन एतद्वारा श्री रजनीश श्रीवास्तव को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अमिताभ जैन, मुख्य सचिव.

**नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग**  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 जून 2023

क्रमांक एफ 1-218/2019/18.—छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम पंचायत को नगर पंचायत नरियरा, जिला-जांजगीर-चांपा गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

**अनुसूची-1**

नगर पंचायत नरियरा की सीमा में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	जनसंख्या वर्ष 2011
1	ग्राम पंचायत नरियरा	9942

**अनुसूची-2**

नगर पंचायत नरियरा की प्रस्तावित सीमाएं निम्नानुसार है :—

ग्राम पंचायत नरियरा की सीमाएं ही नगर पंचायत नरियरा की सीमाएं होंगी.

उक्त अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 21 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति/सुझाव कलेक्टर-जांजगीर-चांपा को कार्यालयीन दिवस एवं समय पर उनके कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चयन हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**अय्याज एफ तम्बोली**, विशेष सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 जून 2023

क्रमांक एफ 1-218/2019/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-218/2019/18 दिनांक 16-06-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**अय्याज एफ तम्बोली**, विशेष सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar the 16th June 2023

No. F 1-218/2019/18.—In exercise of powers conferred by section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby, intend to Constitute Gram Panchayat Nariyara as Nagar

Panchayat Nariyara in District-Janjgir-Champa as per the Schedule given below :—

Schedule-1

The particulars of areas to be included in the limits of Nagar Panchayat Nariyara is as under :—

S. No.	Name of Gram panchayat	population year 2011
1	Gram panchayat Nariyara	9942

Schedule-2

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Nariyara is as under :—

The Boundaries of the Gram Panchayat Nariyara shall be the boundaries of Nagar Panchayat Nariyara.

Any person or any local authority may submit his objection/Suggestion in writing to the Collector, District-Janjgir-Champa on any official day and time within 15 days from the date of Publication in “Chhattisgarh Rajpatra” for the consideration of State Government.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
AYYAJ F TAMBOLI, Special Secretary.

गृह (पुलिस) विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 जून 2023

क्रमांक एफ 7-02/2015/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा श्री दीपक कुमार झा, (भापुसे-2007), पुलिस अधीक्षक, जिला बलौदाबाजार, छ.ग. को दिनांक 05 जून 2023 से 14 जून 2023 (कुल 10 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही दिनांक 03 एवं 04 जून 2023 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

- अवकाश से लौटने पर श्री दीपक कुमार झा आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, जिला बलौदाबाजार, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे।
- अवकाश काल में श्री झा को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व मिलते थे।
- प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री झा, (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।
- श्री दीपक कुमार झा, (भापुसे-2007), पुलिस अधीक्षक, जिला बलौदाबाजार, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री जे. आर. ठाकुर, (रापुसे), पुलिस अधीक्षक, रेल रायपुर, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 जून 2023

क्रमांक एफ 7-06/2020/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा श्रीमती भावना गुप्ता, (भापुसे-2014), पुलिस अधीक्षक, जिला बेमेतरा, छ.ग. को दिनांक 19-06-2023 से 26-06-2023 (कुल 08 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही दिनांक 17 एवं 18 जून 2023 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती भावना गुप्ता आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, जिला बेमेतरा, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगी।
3. अवकाश काल में श्रीमती गुप्ता को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व मिलते थे।
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती गुप्ता (भापुसे-2014) अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।
5. श्रीमती भावना गुप्ता, (भापुसे-2014), पुलिस अधीक्षक, जिला बेमेतरा, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में उनका चालू प्रभार श्री रामकृष्ण साहू, (भापुसे-2012) सेनानी, 13वीं वाहिनी, छसबल, बांगो, जिला कोरबा, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 जून 2023

क्रमांक एफ 7-10/2015/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा श्रीमती मिलना कुर्रे, (भापुसे-2008), पुलिस उप महानिरीक्षक (अजाक/अअवि), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर को दिनांक 26-06-2023 से 05-07-2023 (कुल 10 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही दिनांक 24 एवं 25 जून 2023 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती मिलना कुर्रे आगामी आदेश तक, पुलिस उप महानिरीक्षक (अजाक/अअवि), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगी।
3. अवकाश काल में श्रीमती कुर्रे को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व मिलते थे।
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कुर्रे (भापुसे-2008) अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।
5. श्रीमती मिलना कुर्रे, (भापुसे-2008), पुलिस उप महानिरीक्षक (अजाक/अअवि), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर के उक्त अवकाश अवधि में उनका चालू प्रभार श्रीमती हिमानी खन्ना, (भापुसे-2006), उप पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवाएं, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनोज कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव.

**राजस्व विभाग**

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मनेन्द्रगढ़, दिनांक 25 अप्रैल 2023

क्रमांक/02/भू-अर्जन/रा.प्र.क्र. 01/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	खड़गवां	मंगोरा प.ह.नं.-05	1.06	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण, अंबिकापुर (छ.ग.).	देवाडांड से पेण्डी व्हाया मंगोरा मार्ग पर बुधरा नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खड़गवां के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**पी. एस. ध्रुव**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायपुर, दिनांक 16 जून 2023

क्रमांक/3120/वा./भू.अ./अ.वि.अ./2023.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	देवपुरी प.ह.नं.-73	0.097	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.).	सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

बिलासपुर, दिनांक 30 जून 2023

क्रमांक/18/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	सकरी	सैदा प.ह.नं.-41	0.389	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तखतपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**सौरभ कुमार**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला-सूरजपुर, छत्तीसगढ़  
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व  
एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

सूरजपुर, दिनांक 12 जून 2023

क्रमांक 7362.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

**अनुसूची**

- (1) भूमि का वर्णन—  
(क) जिला-सूरजपुर  
(ख) तहसील-प्रतापपुर  
(ग) नगर/ग्राम-चन्द्रेली, प.ह.नं. 25  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.25 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2	0.09
182	0.07

(1)	(2)	अनुसूची
184	0.09	(1) भूमि का वर्णन—
योग	0.25	(क) जिला-सूरजपुर
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बैकोना-चंद्रेली मार्ग बांकी नदी पर सेतु निर्माण कार्य हेतु.		(ख) तहसील-प्रतापपुर
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), प्रतापपुर जिला सूरजपुर (छ.ग.) के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है.		(ग) नगर/ग्राम-बैकोना, प.ह.नं. 22
		(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.29 हेक्टेयर
		खसरा नम्बर
		रकबा (हेक्टेयर में)
		(1) (2)
		1052 0.29
		योग 0.29
सूरजपुर, दिनांक 12 जून 2023		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बैकोना-चंद्रेली मार्ग बांकी नदी पर सेतु निर्माण कार्य हेतु.
क्रमांक 7363.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), प्रतापपुर जिला सूरजपुर (छ.ग.) के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है.
		छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सूरजपुर, दिनांक 12 जून 2023

प्रारूप-V  
(नियम 10 देखें)

क्रमांक 202109260400007.—जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ खोपा ग्राम, भटगांव तहसील, सूरजपुर जिला में कुल 0.54 हे. भूमि अपेक्षित है, अर्थात्,

इसलिए घोषणा की जाती है कि उपयुक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 0.54 हे. है जो ग्राम खोपा, तहसील भटगांव जिला सूरजपुर में है. धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि का सेतु निर्माण प्रयोजन हेतु आवश्यकता है. जिसका

विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :—

क्र.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र हे. में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
						उ.	द.	पू.	प.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	643	भूमि स्वामी	चंवर	0.09	धीरन आ. धनसाय, लीलामनी, उर्मिला, सुमित्रा पुत्री धनसाय, मु. लालो बेवा धनसाय, दीपन, दारा सिंह, परमानन्द आ. नान्हू, सोनामती पुत्री नान्हू, मु. जगमेन बेवा नान्हू निवासी ग्राम खोपा तहसील भटगांव जिला सूरजपुर	खसरा क्र. 645	नदी	खसरा क्र. 644	खसरा क्र. 642
2.	645	भूमि स्वामी	चंवर	0.09	देवधारी, श्रीलाल, शिवधारी आ. अमरीकन, मु. महेशिया बेवा अमरीकन, राजाराम, गुलाबसाय, सोमारसाय आ. चौधरी निवासी ग्राम खोपा तहसील भटगांव जिला सूरजपुर	खसरा क्र. 649	खसरा क्र. 643	खसरा क्र. 644	खसरा क्र. 642, 641, 640
3.	649	भूमि स्वामी	चंवर	0.24	दिलीप, पतांगो आ. सहदेव, महादेव, अमरसाय, मुखदेव आ. मोहरसाय, भूलो, गडली, मानकुवर, मटको पुत्री गजरूप, बुधु, बबलु आ. सुखदेव, सुखमेन पति सुखदेव निवासी ग्राम खोपा तहसील भटगांव जिला सूरजपुर	खसरा क्र. 650, कच्ची सड़क	खसरा क्र. 645	खसरा क्र. 650	खसरा क्र. 648
4.	650	भूमि स्वामी	चंवर	0.12	दिलीप पतांगो आ. सहदेव, महादेव, अमरसाय, मुखदेव आ. मोहरसाय, भूलो, गडली, मानकुवर, मटको पुत्री गजरूप, बुधु, बबलु आ. सुखदेव, सुखमेन पति सुखदेव, निवासी ग्राम खोपा तहसील भटगांव जिला सूरजपुर	कच्ची सड़क	खसरा क्र. 644, 655	खसरा क्र. 655, 651	खसरा क्र. 645, 644, 649, 648

वृक्ष	
किस्म	संख्या
निरंक	निरंक

संरचनाएं	
प्रकार	प्लिंथ एरिया
निरंक	निरंक



यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है।

ग्राम खोपा तहसील भटगांव जिला सूरजपुर अन्तर्गत 0.54 हे. भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने नहीं हैं। खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है की परियोजना के निर्माण के दौरान खोदे जाने या हटाने या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, अर्जन सेतु निर्माण परियोजना हेतु किया जा रहा है,

जिला भूमि अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैयाथान के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार संलग्न है।

सूरजपुर, दिनांक 21 जून 2023

**प्रारूप-V**  
(नियम 10 देखें)

क्रमांक 202111260400026.—जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ कसकेला व केवटाली ग्राम, भटगांव तहसील, सूरजपुर जिला में कुल 0.444 हे. भूमि अपेक्षित है अर्थात्,

इसलिए घोषणा की जाती है कि उपयुक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 0.444 हे. है जो ग्राम कसकेला व केवटाली, तहसील भटगांव जिला सूरजपुर में है। धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि का सेतु निर्माण प्रयोजन हेतु आवश्यक है। जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :—

क्र.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र हे. में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
						उ.	द.	पू.	प.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	6	भूमि स्वामी	डांड	0.084	बुचुन, मथुरा, नानबाबू पिता बलजीत, मुरली, सावित्री, मानमति पुत्री बलजीत नोहरी वेवा बलजीत निवासी ग्राम कसकेला, तहसील भटगांव, जिला सूरजपुर (छ.ग.)	नदी	खसरा क्र. 7	कच्ची सड़क	खसरा क्र. 5/1
2	101	भूमि स्वामी	डांड	0.06	सोनसाय आ. जगत, रामदुलार आ. जगत, नेतलाल, देवमनिया, गुड्डु, मोहरमनिया, पातर पिता प्रेमसाय निवासी ग्राम केंवटाली, तहसील भटगांव जिला सूरजपुर (छ.ग.)	खसरा क्र. 95/4	खसरा क्र. 112	कच्ची सड़क	खसरा क्र. 100, 102, 108, 109

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.	112	भूमि स्वामी	डांड	0.30	अमरसाय, दलीप साय, नान्दूराम आ. भोंदू, मंगना आ. सुन्दर निवासी ग्राम केंवटाली, तहसील भटगांव, जिला सूरजपुर (छ.ग.)	खसरा क्र. 101	खसरा क्र. 113 नदी	कच्ची सड़क	खसरा क्र. 109, 111

वृक्ष	
किस्म	संख्या
निरंक	निरंक

संरचनाएं	
प्रकार	प्लिंथ एरिया
निरंक	निरंक

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है।

ग्राम कसकेला व केवटाली तहसील भटगांव जिला सूरजपुर अन्तर्गत 0.444 हे. भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने नहीं हैं। खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित किया जा रहा है कि परियोजना के निर्माण के दौरान खोदे जाने या हटाने या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, अर्जन सेतु निर्माण परियोजना हेतु किया जा रहा है।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैयाथान के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार संलग्न है।

संजय अग्रवाल,  
कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

### छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक-A एकात्म पथ, सेक्टर-24 अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 8 जून 2023

क्रमांक/80/04/योजना/बीओसी/2023/141.—“भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996” सहपठित “छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008” के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के संचालित “मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना” में छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के संचालक मंडल की 19वीं बैठक दिनांक 19-04-2023 में लिए गए निर्णय के परिपालन में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक/80/04/योजना/बीओसी/2023/137 दिनांक 01-03-2023 के कण्डिका (ग) योजना का प्रावधान के उपबिन्दु (2), कण्डिका (घ) योजना में देय हितलाभ, कण्डिका (ड.) योजना की पात्रता के उपबिन्दु (3) एवं कण्डिका (च) योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज की उपबिन्दु (3) में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है :—

#### “मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना” :—

##### (ग) योजना का प्रावधान :—

2. हितग्राही द्वारा ऋण (लोन) स्वीकृति के दिनांक से 06 माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा को विलोपित करता है.

- (घ) **योजना में देय हितलाभ :—** मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं के भूखंड पर आवास निर्माण/नवीन आवास क्रय के लिए वित्तीय संस्थान अथवा बैंक से लिये गये ऋण (लोन) हेतु ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए वास्तविक ब्याज की राशि राशि रुपये 50,000/- तक जो भी कम हो अनुवृत्ति (सब्सिडी) के रूप में देय होगा के स्थान पर

मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं के भूखंड पर आवास निर्माण अथवा नवीन आवास क्रय के लिए पात्र हितग्राहियों को राशि रु. 50,000/- एकमुश्त अनुदान के रूप में देय होगा अंतः स्थापित करता है.

- (ड.) **योजना की पात्रता :—**

3. पति व पत्नि दोनों के मंडल में पंजीकृत हितग्राही होने की स्थिति में योजना के तहत केवल एक ही हितग्राही को आवास के लिए अनुवृत्ति (सब्सिडी) प्राप्त हो सकेगा के स्थान पर

पति व पत्नि दोनों के मंडल में पंजीकृत हितग्राही होने की स्थिति में योजना के तहत केवल एक ही हितग्राही को आवास के लिए एकमुश्त अनुदान राशि प्राप्त हो सकेगा अंतः स्थापित करता है.

- (च) **योजना आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज :—**

3. ऋण प्रदाता वित्तीय संस्थान/बैंक के द्वारा ऋण पर लगने वाले ब्याज की गणना संबंधी पत्रक को विलोपित करता है.

(शेष नियम शर्तें यथावत रहेंगी.)

उपरोक्त योजना में संशोधन अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी.

सविता मिश्रा,  
सचिव.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 26th April 2023

No. 824/Confdl./2023/II-2-1/2023.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office(s) and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judge of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Jaideep Vijay Nimonkar, District & Sessions Judge.	Bemetara	Ramanujganj	Balrampur (Ramanujganj)	District & Sessions Judge.
2.	Shri Brijendra Kumar Shastri, I Additional Principal Judge, Family Court.	Raipur	Bemetara	Bemetara	District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 26th April 2023

No. 826/Confdl./2023/II-2-90/2001 (Part-IV).—A) Shri Balram Prasad Verma, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Registrar (Selection & Appointment) is now appointed as Registrar (I. & E.) in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office.

B) Shri Jitendra Kumar, Member of Higher Judicial Service and presently posted as special Judge under S.C. & S.T. (P.A.) Act, Raigarh is transferred and appointed as Registrar (Selection & Appointment) in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office.

C) Shri Khilawan Ram Rigri, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Special Judge under S.C. & S.T. (P.A.) Act, Janjgir-Champa is transferred and appointed as Additional Registrar (Judicial) in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office.

Bilaspur, the 26th April 2023

No. 828/Confdl./2023/II-2-1/2023.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, is hereby transferred from the place mentioned in Column No. (3) and is posted on the post of Special Judge of the Special Court established by the State Government under Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 at the place mentioned in Column No. (4) from the date he assumes charge of his office and;

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Rajbhan Singh, Additional District & Sessions Judge, F.T.S.C. (RAPE & POCSO).	Gariaband	Bilaspur	Bilaspur	Special Judge under S.C. & S.T. (P. A.) Act.

Bilaspur, the 26th April 2023

No. 830/Confdl./2023/II-2-1/2023.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office(s) and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Neeraj Sharma, Additional Registrar (Judicial), High Court of Chhattisgarh.	Bilaspur	Mungeli	Mungeli	I Additional District & Sessions Judge.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Shri Pankaj Kumar Jain, Chairman, Permanent Lok Adalat.	Bilaspur	Dhamtari	Dhamtari	Additional District & Sessions Judge, F.T.S.C. (POCSO).
3.	Shri Sunil Kumar Nande, Additional Secretary, Government of Chhattisgarh, Law Department.	Raipur	Surajpur	Surajpur	III Additional District & Sessions Judge.
4.	Shri Shahabuddin Qureshi, IV Additional District & Sessions Judge.	Bilaspur	Baloda-Bazar	Baloda-Bazar	II Additional District and Sessions Judge.
5.	Shri Mukesh Kumar Patre, Additional District & Sessions Judge F.T.S.C. (POCSO).	Balod	Chirmiri	Koriya (Baikunthpur)	Additional District & Sessions Judge.
6.	Ku. Radhika Saini, Deputy Secretary, Chhattisgarh Lok Ayog.	Raipur	Sarangarh	Raigarh	Additional District & Sessions Judge.
7.	Shri Anil Kumar Pandey, Additional Secretary, Government of Chhattisgarh, Law & Legislative Affairs Department.	Raipur	Mahasamund	Mahasamund	II Additional District & Sessions Judge.
8.	Shri Lavakesh Pratap Singh Baghel, Additional District & Sessions Judge.	Kawardha	Raipur	Raipur	Additional District and Sessions Judge, I F.T.S.C. (POCSO).
9.	Shri Yashwant Wasnikar, XI Additional District & Sessions Judge.	Raipur	Gariaband	Raipur	Additional District & Sessions Judge, F.T.S.C. (RAPE & POCSO).
10.	Shri Shrinivas Tiwari, III Additional District & Sessions Judge.	Ambikapur	Kawardha	Kabirdham (Kawardha)	Additional District & Sessions Judge.
11.	Shri Shailesh Achyut Patwardhan, II Additional District & Sessions Judge.	Bilaspur	Jashpur	Jashpur	Additional District & Sessions Judge.
12.	Shri Kiran Kumar Jangade, I Additional District & Sessions Judge.	Raigarh	Balod	Balod	Additional District & Sessions Judge, F.T.S.C. (POCSO),
13.	Shri Vivek Kumar Tiwari (Jr.), Additional District & Sessions Judge, I F.T.S.C. (POCSO).	Bilaspur	Manendragarh	Koriya (Baikunthpur)	I Additional District & Sessions Judge.

**Note :-**The Judicial Officer mentioned at serial no. 8 is not entitled to any transfer grant and/or allowance(s) pursuant to transfer on his own request.

Bilaspur, the 26th April 2023

No. 832/Confdl./2023/II-2-1/2023.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, who are posted in the capacity as mentioned in Column No. (3) are, henceforth, posted in the capacity as mentioned in Column No. (4) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Presently posted in the capacity (3)	Henceforth posted in the capacity (4)
1.	Ku. Smita Ratnawat	V Additional District & Sessions Judge, Bilaspur.	Additional District & Sessions Judge, I F.T.S.C. (POCSO), Bilaspur.
2.	Shri Deepak Kumar Gupta	II Additional District & Sessions Judge, Rajnandgaon.	I Additional District & Sessions Judge, Rajnandgaon.
3.	Shri Kamlesh Jagdalla	V Additional District & Sessions Judge, Raigarh.	I Additional District & Sessions Judge, Raigarh.

Bilaspur, the 26th April 2023

No. 836/Confdl./2023/II-2-1/2023.—The incumbent Judicial Officers of the Court, as specified in Column No. (2) of the table below, are, hereby, given additional charge of the Court as mentioned in Column No. (3), in addition to their own duties, until further orders :—

TABLE

S. No. (1)	Name of the Court (2)	Additional Charge (3)
1.	District & Sessions Judge, Raigarh	Special Judge under S.C. & S.T. (P.A.) Act, Raigarh.
2.	District & Sessions Judge, Janjgir-Champa	Special Judge under S.C. & S.T. (P.A.) Act, Janjgir-Champa.
3.	Additional District and Sessions Judge, Kawardha.	Additional District and Sessions Judge (F.T.C.), Kawardha.
4.	Additional District and Sessions Judge, Jashpur	Additional District and Sessions Judge (F.T.C.) Jashpur.
5.	X Additional District & Sessions Judge, Bilaspur	Labour Judge, Labour Court, Bilaspur
6.	II Additional District & Sessions Judge, Manendragarh.	Labour Judge, Labour Court, Manendragarh
7.	III Additional District and Sessions Judge, Rajnandgaon.	Labour Judge, Labour Court, Rajnandgaon.

Bilaspur, the 26th April 2023

No. 845/Confdl./2023/II-3-1/2023.—The following Members of Lower Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, who are posted in the capacity as mentioned in Column No. (3) are, henceforth, posted in the capacity as mentioned in Column No. (4) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Presently posted in the capacity (3)	Henceforth posted in the capacity (4)
1.	Shri Girivar Singh Rajput	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Mahasamund at Basna.	Civil Judge Class-II, Basna
2.	Ku. Kumudani Garg	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Dhamtari at Kurud.	Civil Judge Class-II, Kurud

Bilaspur, the 29th April 2023

No. 873/Confdl./2023/II-3-1/2023.—In Registry Order No. 841/Confdl./2023/II-3-1/2023 dated 26-04-2023, in Sl. No. 9, Column No. 6 be read as 'II Civil Judge Class-I' instead of Civil Judge Class-I.

By order of Hon'ble the Chief Justice,  
ARVIND KUMAR VERMA, Registrar General.